



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 144]
No. 144]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बैंकिंग प्रभाग
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

का० भा० 174 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के अनुरोध पर, 31 मार्च, 1979 से बिहार राज्य में नालन्दा ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के नालन्दा जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1-2/79-आर०आर० बी०(I)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
BANKING DIVISION
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1979

S.O. 174(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Punjab National Bank, establishes, with effect from the 31st March, 1979, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Nalanda Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Nalanda in the State of Bihar.

[No. F. 1-2/79-RRB(I)]

का० भा० 175 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों

1376 GI/78

(321)

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नालन्दा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श करके, नालन्दा जिले के बिहार शरीफ को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर नालन्दा ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1-2/79-आर० आर० बी० (II)]

S.O. 175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, by which Nalanda Gramin Bank has been sponsored, specifies Bihar Shariff in the district of Nalanda as the place where Nalanda Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-2/79-RRB(II)]

का० भा० 176 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, नालन्दा ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1-2/79-आर०आर० बी०(III)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 176(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Nalanda Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-2/79-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jr. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)
अधिसूचना
बम्बई, 31 मार्च, 1979

क्रा० भा० 177(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहार शरीफ ।

[डी० बी० ओ० डी० सं० 163/आई० एन० सी० एल०/सी० 102-79]
एम० रामकृष्णय्या, उप गवर्नर

RESERVE BANK INDIA
(Department of Banking Operations and Development)
NOTIFICATION
Bombay, the 31st March, 1979

S.O. 177(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

Nalanda Gramin Bank, Bihar Shariff.

[DBOD. No. 163/INCL/C. 102-79]
M. RAMAKRISHNAYYA, Dy. Governor.